



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 23, 1980/फाल्गुन 4, 1901
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 23, 1980/PHALGUNA 4, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति संचालय
(नागरिक पूर्ति विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1980

सा. का. नि. 57(अ).—केंद्रीय सरकार, विलायक निस्सारित तेल, विनिर्मित भोजन और खाने योग्य तेल (नियंत्रण) आदेश, 1967 के खण्ड 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1864 तारीख 9 अक्टूबर, 1968 के द्वारा प्रकाशित विलायक-निस्सारित तेल,

वित्तिलित भोजन और खाने योग्य आटा (शक्तियों का प्रत्यायोजन) आदेश, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम विलायक-निस्सारित तेल, वित्तिलित भोजन और खाने योग्य आटा (शक्तियों का प्रत्यायोजन) (संशोधन) आदेश, 1980 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. विलायक-निस्सारित तेल, वित्तिलित भोजन और खाने योग्य आटा (शक्तियों का प्रत्यायोजन) आदेश, 1968 में, प्रथम अनुसूची में, भाग ख में, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)

(2)

“आंध्र प्रदेश

1. कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट

2. संयुक्त कलक्टर

3. राजस्व मण्डल अधिकारी और उपमण्डल मजिस्ट्रेट (कार्यपालक)

4. आयुक्त, नागरिक पूर्ति और निवेशक, नागरिक पूर्ति।

5. पुलिस अधिकारी, जो उप-पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे के नहीं हैं।”

[सं. 2-एस ई डी (2)/डेल/69]

आई. एम. सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 1980

G.S.R. 57(E).—In exercise of the powers conferred by clause 15 of the Solvent-Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967, the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Solvent Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Delegation of Powers) Order, 1968, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Food) No. G.S.R. 1864, dated the 9th October, 1968, namely :—

1. (1) This Order may be called the Solvent-Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Delegation of Powers) (Amendment) Order, 1980.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Solvent Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Delegation of Powers) Order, 1968, in the First Schedule in Part B, for the existing entries relating to the State of Andhra Pradesh, the following entries shall be substituted, namely :—

(1)

(2)

"Andhra Pradesh

1. Collectors and District Magistrates.
2. Joint Collectors
3. Revenue Divisional Officers and Sub-Divisional Magistrates (Executive,
4. Commissioner of Civil Supplies and Director of Civil Supplies
5. Police Officers not below the rank of Deputy Superintendent of Police."

[2-SEO(2)/Del/69]

I. M. SAHAI, Jt. Secy.

